

महत्वपूर्ण सूचना

विषय : केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा,2018

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा,2018 की लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा आयोग द्वारा दिनांक 20.06.2019 को की गयी थी।

2. एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा में शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता परीक्षा/शारीरिक मापदंड परीक्षा अनंतिम रूप से अगस्त - सितम्बर,2019 में आयोजित किए जाने की संभावना है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए अनुदेश के अनुसार आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपने मूल फोटो पहचान पत्र, प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट तथा पासपोर्ट आकार का एक रंगीन फोटोग्राफ लाने का निदेश दिया जाता है।

3. अतः यह पुनः बताया जाता है कि यदि अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा परिणाम/ परीक्षा स्कोर कार्ड में दिए गए डाटा में कोई विसंगति देखी जाती है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा परीक्षा स्कोर कार्ड के प्रिंट आउट की प्रति सहित शीघ्रातशीघ्र और अंतिम रूप से दिनांक 31.7.2019 तक आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के ध्यान में लाया जाए।

4. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रेणी, लिंग, अधिवास राज्य/जिलों आदि के संबंध में गलत तरीके से भरे गए किसी भी डाटा को सुधारने के किसी भी अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. डाटा में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर शारीरिक क्षमता परीक्षा/शारीरिक मापदंड परीक्षा बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर/-

अवर सचिव(गोप.1/2)

24.07.2019